


10/13

J

M 83

रजिस्ट्री स. डी. (बी.एन.)-72

REGISTERED No D. HAN. 72



भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 1, 1983/पौष 11, 1904
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JAN. 1, 1983/PAUSA 11, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

64 - paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 1 जनवरी, 1983

का० प्रा० 1(अ). 3-केन्द्रीय सरकार (उद्योग विकास और विनियमन)
अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए नीचे की गारण्टी स्पष्ट (2) में यथावर्णित

वस्त्रों के अनुसूचित उद्योगों में संपूर्णतः या अंशतः पटसन में विनिर्मित या उत्पादित उस माल के वर्गों को विनिर्दिष्ट करती है जिन पर उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दरों पर सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को तथा उसमें आरम्भ होने वाली तथा 30 जून, 1983 तक थी, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपकर के रूप में उत्पादशुल्क उद्गृहीत और संग्रहीत किया जाएगा।

सारणी

क्रमांक	माल के वर्गों का वर्णन	प्रति मीट्रिक टन उत्पाद-शुल्क की दर
1	2	3
1.	गलीचा अस्तर	8.50 रु० (केवल आठ रुपये पचास पैसे)
2.	बोरों, गलीचा अस्तर और सूती बोरा वस्त्र में भिन्न हैसियत और पटसन के कपड़े	7.00 रु० (केवल सात रुपये)
3.	बोरे	5.62 रु० (केवल पांच रुपये बासठ पैसे)
4.	सूत	5.62 रु० (केवल पांच रुपये बासठ पैसे)
5.	रज्जू	3.75 रु० (केवल तीन रुपये पचहत्तर पैसे)
6.	सूती बोरा कपड़ा	2.50 रु० (केवल दो रुपये पचास पैसे)
7.	ऐसे विनिर्माण (उनसे भिन्न जो ऊपर क्रम संख्या 1 से 6 में विनिर्दिष्ट है) जिनमें पटसन की मात्रा कुल भार का 50 प्रतिशत या अधिक है।	6.25 रु० (केवल छह रुपये पच्चीस पैसे)

[फा० सं० 8/19/80-एल पी]

एस० एल० कपूर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 1st January, 1983

S.O. 101) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Industrial (Dev. & Reg.) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby specifies the classes of goods manufactured or produced wholly or in part of jute in the Scheduled Industry of textiles as mentioned in column (2) of the Table below on which a duty of excise shall be levied and collected as a cess for the purposes of the said Act, for the period commencing on and from the date of publication of this notification in the official Gazette and upto and inclusive of the 30th June 1983 at such rates as specified in the corresponding entry in column (3) of the said table

TABLE

S No	Description of class of goods	Rate of duty of excise per tonne
1	2	3
1	Carpet backing	Rs. 8.50 (Rs. Eight & Paise fifty only)
2	Hessian and jute fabrics other than sacking, carpet backing & cotton bagging	Rs. 7.00 (Rs. Seven only)
3	Sacking	Rs. 5.62 (Rs. Five & Paise Sixty two only)
4	Yarn	Rs. 5.62 (Rs. Five & Paise Sixty two only)
5	Twine	Rs. 3.75 (Rs. Three & Paise Seventy five only)
6	Cotton bagging	Rs. 2.50 (Rs. Two & Paise Fifty only)
7	The manufactures (other than those specified at serial No. 1-6 above) containing 50% or more of jute by weight	Rs. 6.25 (Rs. Six & Paise Twenty five only)

[1 No. 8(19)/80-LP].

S. L. KAPUR, Jt. Secy

